



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2003/पौष 13, 1924

No. 3]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2003/PAUSA 13, 1924

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2003

सं. 303/48/2002-एफ (एफ).—सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि भारत के असाधारण राजपत्र, के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 303/64/2001-एफ (एफ) दिनांक 4-6-2002 के तहत प्रकाशित भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विनियमों तथा सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के विनियमों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने संबंधित जूरियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित फिल्मों/पुस्तकों/व्यक्तियों को पुरस्कार देने का निर्णय किया है, यथा—

## I. दादा साहेब फाल्के पुरस्कार

| क्रम संख्या | पुरस्कार का नाम            | पुरस्कार विजेता फिल्म/पुस्तक/व्यक्ति | पुरस्कार का विवरण   |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1.          | दादा साहेब फाल्के पुरस्कार | यश चोपड़ा                            | यश चोपड़ा मे. यशराज फिल्मस प्रा. लि., 17 विकास पार्क, जलपांकी सोसाइटी, जूहू, मुम्बई 400049 दूरभाष : 022-26178766/26178700 फैक्स 26116714 को स्वर्ण कमल, एक शाल और रुपये 2,00,000 का नकद पुरस्कार। |

## II. फीचर फिल्म

| क्रम संख्या | पुरस्कार का नाम    | पुरस्कार विजेता फिल्म/पुस्तक/व्यक्ति | पुरस्कार का विवरण  |
|-------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 1.          | सर्वोत्तम कथाचित्र | दीपा (कन्नड)                         | निर्माता सौन्दर्य, मैसर्स सत्या मूवी मेकर्स, S05, चौथा क्रॉस, तीसरा ब्लॉक, दूसरी स्टेज, आर. एम. वी. एक्सटेंशन, बंगलोर 560 094 दूरभाष : 341 2999 को स्वर्ण कमल और रुपये 50,000 का नकद पुरस्कार। |

|    |   |                   |   |
|----|---|-------------------|---|
|    |   |                   | निर्देशक गीरीश कासरावली<br>1015, आठवां क्रॉस, 16 वां मेन<br>बी टी एम लेआउट, पहली स्टेज,<br>बंगलोर 560 029 ☎ 6681015<br>फैक्स 080 6681014 को स्वर्ण<br>कमल और रुपये 50,000/- का<br>नकद पुरस्कार  |
| 2. | निर्देशक की सर्वोत्तम<br>पहली फिल्म के लिए<br>इंदिरा गांधी पुरस्कार | तिलावानम (तेलुगु) | निर्माता एन एफ डी सी लि०, न.<br>3, चौथी गली, नंगमबक्कम हाई<br>रोड, चेन्नई 600034 को स्वर्ण<br>कमल और रुपये 25,000/- का<br>नकद पुरस्कार<br><br>निर्देशक के. एन. टी. शास्त्री,<br>202, आश्रय अपार्टमेंट्स, श्रीपुरी<br>कालोनी, सिकंदराबाद 500 015<br>☎ 040 7742159 को स्वर्ण<br>कमल और रुपये 25,000/- का<br>नकद पुरस्कार  |
| 3. | लोकप्रिय एवं स्वस्थ<br>मनोरंजन प्रदान करने<br>वाली सर्वोत्तम फिल्म  | लगान ( हिन्दी )   | निर्माता आमिर खान, आमिर खान<br>प्रोडक्शंस, कुबेर निवास, बंगला<br>सं० - 2, मीरा बाग रोड,<br>सांताक्रूज (पश्चिम) मुंबई 400<br>054 ☎ 022<br>6605250/6605251 फैक्स 660<br>8201 को स्वर्ण कमल और<br>रुपये 40,000/- का नकद<br>पुरस्कार<br><br>निर्देशक आशुतोष गोवारीकर,<br>100/597 गावारीकर कुमकुम<br>विला, 16 वां रोड बांद्रा (पश्चिम)<br>मुंबई - 400 050 ☎<br>26004687/26004570 फैक्स<br>26608201 को स्वर्ण कमल और<br>रुपये 40,000/- का नकद<br>पुरस्कार |

|    |  |                               |   |
|----|--|-------------------------------|---|
| 4. | राष्ट्रीय एकता संबंधी सर्वोत्तम कथाचित्र के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार  | बब (कश्मीरी)                  | निर्माता एन एफ डी सी लि०, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेन्टर, डा. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई 400 018 को रजत कमल और रुपये 30,000/- का नकद पुरस्कार<br><br>निर्देशक ज्योति सरूप, बी-604, अभिषेक अपार्टमेंट्स, जुहु वसोवा, लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम) मुंबई 400 053 ☎ 022 637 3562, टेलीफैक्स 26371023/9821226969 को रजत कमल और रुपये 30,000/- का नकद पुरस्कार           |
| 5. | अन्य सामाजिक मुद्दों जैसे निषेध, स्त्री एवं बाल कल्याण, दहेज विरोधी, नशा, गाली एवं विकलांग कल्याण पर सर्वोत्तम फिल्म | चांदनी बार (हिन्दी)           | निर्माता लता मोहन अय्यर, श्लोक फिल्म्स, ए/9 जी सी अपार्टमेंट्स, विद्या नगरी रोड, कलीना, शांताक्रूज (पू०) मुंबई 400 098 ☎ 022 26115092/26902983, फैक्स 2690 2982 को रजत कमल और रुपये 30,000/- का नकद पुरस्कार<br><br>निर्देशक मधुर आर. भंडारकर, 634 हरी भवन, खार पाली रोड, भूतल, मुंबई 400 052 ☎ 022 6484053 98203 08349 को रजत कमल और रुपये 30,000/- केवल का नकद पुरस्कार |
| 6. | सर्वोत्तम निर्देशन   | बी. लेनिन ओरुकु (तमिल) नूरुपर | निर्देशक बी. लेनिन, 3 मूरे गेट रोड, अलवरपेट, चेन्नई - 600 018 को स्वर्ण कमल और रुपये 50,000/- केवल का नकद पुरस्कार  |

|     |                        |  |   |
|-----|------------------------|--|---|
| 7.  | सर्वोत्तम अभिनेता      | मुरली<br>नेतुकरण (मलयालम )   | अभिनेता श्री मुरली, कार्तिका,<br>पंडित कॉलोनी, कोदीयार,<br>तिरुवनंतपुरम - 3, केसल २<br>0471 315984/311123 फ़ैक्स<br>0471 311123 को रजत कमल<br>और रुपये 10,000/- केवल का<br>नकद पुरस्कार   |
| 8.  | सर्वोत्तम अभिनेत्री    | तबु<br>चांदनी बार (हिन्दी )<br><br>शोभना<br>मित्र माई फ़ैंड<br>(अंग्रेजी ) | अभिनेत्री तबु, बी-1, 303, ग्रीन<br>एकड, लोखंडवाला कॉम्पलेक्स,<br>अंधेरी (पC), मुंबई - 400<br>053 २ 632<br>4702/9821335670 फ़ैक्स<br>56904039/56904732 को रजत<br>कमल और रुपये 5,000/- केवल<br>का नकद पुरस्कार<br><br>अभिनेत्री शोभना, 77/5,<br>गुलमोहन एवेन्यू, वेलाचेरी रोड,<br>गिन्डी, चेन्नई 32 २<br>2351348/2354036 टेलीफ़ैक्स<br>4990289 को रजत कमल और<br>रुपये 5,000/- केवल का नकद<br>पुरस्कार |
| 9.  | सर्वोत्तम सह अभिनेता   | अतुल कुलकर्णी<br>चांदनी बार (हिन्दी )                                      | सह अभिनेता अतुल कुलकर्णी,<br>502, नंदन, याहोधाम, फिल्म<br>सिटी रोड, गोरेगाँव (पूर्व ),<br>मुंबई 400 063 २<br>8427766/8402942/98205108<br>84 को रजत कमल और रुपये<br>10,000/- केवल का नकद<br>पुरस्कार   |
| 10. | सर्वोत्तम सह अभिनेत्री | अनन्य खरे<br>चांदनी बार (हिन्दी )  | सह अभिनेत्री अनन्य खरे, 402,<br>ए विंग, पदमावती नगर सोसाइटी,<br>फिल्म सिटी रोड, गोरेगाँव (पूर्व )<br>मुंबई 400 063 २<br>8421943/9820070823 को<br>रजत कमल और रुपये 10,000/-<br>केवल का नकद पुरस्कार  |

|     |                          |  |   |
|-----|--------------------------|--|---|
| 11. | सर्वोत्तम बाल कलाकार     | बेबी पी. स्वेता<br>कुट्टी (तमिल )  | बाल कलाकार बेबी पी. स्वेता,<br>बी-10, विष्णुप्रिया अपार्टमेंट्स,<br>16, वेंकटेशन स्ट्रीट, टी. नगर,<br>चेन्नई 600 017 📞<br>4346617/9841051181 को<br>रजत कमल और रुपये 10,000/-<br>केवल का नकद पुरस्कार  |
| 12. | सर्वोत्तम पार्श्व गायक   | उदित नारायण<br>लगान ( हिन्दी )<br>एवं<br>दिल चाहता है<br>(हिन्दी )         | पार्श्व गायक उदित नारायण,<br>1101/ए, स्काईपन, ओबेरॉय<br>कॉम्प्लेक्स, न्यू लिंक रोड, अंधेरी<br>(प0) मुंबई 400 053 📞<br>6364356/6325937 फैक्स<br>6347451 को रजत कमल और<br>रुपये 10,000/- केवल का नकद<br>पुरस्कार  |
| 13. | सर्वोत्तम पार्श्व गायिका | सादना सरगम<br>उदयगीताविन<br>"अजाही "                                       | पार्श्व गायिका सादना सरगम,<br>द्वारा श्रीमती उदयगीता सिने<br>क्रिएटिंग्स, 29/52, वेलायूधाम<br>कॉलोनी, दूसरी स्ट्रीट, सालीग्राम,<br>चेन्नई - 93 📞 3760290 को<br>रजत कमल और रुपये 10,000/-<br>केवल का नकद पुरस्कार  |
| 14. | सर्वोत्तम छायांकन        | एच. एम. रामचन्द्रा<br>हलकरे<br>द्वीपा (कन्नड )<br><br>सर्वोत्तम प्रयोगशाला | छायाकार एच. एम. रामचन्द्र<br>हलकरे, 496, छठा मेन डॉलर्स<br>कालोनी, आर. एम. वी., दूसरी<br>स्टेज, बंगलोर 560094 📞 080<br>351416 को रजत कमल और<br>रुपये 10,000/- केवल का नकद<br>पुरस्कार<br><br>फिल्म की प्रोसेसिंग करने वाली<br>प्रयोगशाला, प्रसाद लैब, बंगलोर<br>को रजत कमल और रुपये<br>10,000/- केवल का नकद<br>पुरस्कार |
| 15. | सर्वोत्तम पटकथा          | नीलाकंठा<br>शो (तेलुगु)  | पटकथा लेखक नीलाकंठा, 6-3-<br>596/23 डी, वेंकटरमना कॉलोनी,<br>हैदराबाद - 4 📞 040<br>3324704 को रजत कमल और<br>रुपये 10,000/- केवल का नकद<br>पुरस्कार  |

|     |                        |   |   |
|-----|------------------------|---|---|
| 16. | सर्वोत्तम ध्वनि आलेखन  | एच. श्रीधर<br>लगान (हिन्दी )<br><br>एवं<br><br>नकुल कामटे<br>लगान (हिन्दी ) | अंतिम मिश्रित ट्रैक के पुनः ध्वनि<br>आलेखक श्री एच. श्रीधर, जी एफ<br>न. 1, अक्षय अपार्टमेंट्स, 34<br>कृष्णा स्वामी एवेन्यु, मालापोर,<br>चेन्नई 600 004, ☎<br>9840091692 को रजत कमल<br>और रुपये 5,000/- केवल का<br>नकद पुरस्कार<br><br>अंतिम मिश्रित ट्रैक के पुनः ध्वनि<br>आलेखक नकुल कामटे, 9, पाम<br>कोर्ट, 152 एम. कर्वे रोड, मुंबई<br>400 020 ☎ 2023504 फ़ैक्स<br>3874510/9820068739 को<br>रजत कमल और रुपये 5,000/-<br>केवल का नकद पुरस्कार |
| 17. | सर्वोत्तम संपादन       | बीना पॉल<br>मित्र भाई फ्रैंड<br>(अंग्रेजी )                                 | संपादक बीना पॉल, 5 के,<br>सरस्वती नीलायम, जवाहर नगर,<br>त्रिवेन्द्रम - 41 ☎ 0471<br>720760 को रजत कमल और<br>रुपये 10,000/- केवल का नकद<br>पुरस्कार  |
| 18. | सर्वोत्तम कला निर्देशन | नितिन चन्द्रकांत<br>देसाई<br><br>लगान ( हिन्दी )                            | कला निर्देशक नितिन चन्द्रकांत<br>देसाई, 201/202, तुलिप<br>साईनाथ, गार्डन, नवघर रोड,<br>मुलुंड (पू0) , मुंबई 400 081.<br>☎ 5693796 टेलीफ़ैक्स<br>5688447 को रजत कमल और<br>रुपये 10,000/- केवल का नकद<br>पुरस्कार   |
| 19. | सर्वोत्तम वेशभूषाकार   | भानू अथैया<br><br>लगान ( हिन्दी )   | वेशभूषाकार भानू अथैया, 19<br>भूतल, शंकर महल, सोफिया<br>कालेज लेन, ब्रीच कैंडी के<br>सामने, मुंबई 400 026 ☎<br>23633185 को रजत कमल<br>और रुपये 10,000/- केवल का<br>नकद पुरस्कार  |

|     |                                    |                                   |  |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 20. | सर्वोत्तम संगीत निर्देशन           | ए. आर. रहमान<br>लगान (हिन्दी )    | संगीत निर्देशक ए. आर. रहमान,<br>न. 5, डा. सुब्रयन नगर, चौथी<br>गली, कोडमबक्कम, चेन्नई 24<br>टेलीफैक्स 4802626 ☎<br>4836072/4812556 को रजत<br>कमल और रुपये 10,000/-<br>केवल का नकद पुरस्कार                         |
| 21. | सर्वोत्तम गीत                      | जावेद अख्तर<br>लगान (हिन्दी )     | गीतकार जावेद अख्तर, 702,<br>सागर सम्राट, ग्रीन फील्ड, जुहू,<br>मुंबई 400 049 ☎ 6200066<br>टेलीफैक्स 620 2602 को<br>रजत कमल और रुपये 10,000/-<br>केवल का नकद पुरस्कार   |
| 22. | निर्णायक मंडल का<br>विशेष पुरस्कार | जानकी विश्वनाथन<br>कुट्टी (तमिल ) | निर्देशक जानकी विश्वनाथन, बी-<br>1, वसंत अपार्टमेंट्स, 260,<br>लॉयड्स रोड, चेन्नई 600 086<br>☎ 8206516/8262441 को<br>रजत कमल और रुपये 25,000/-<br>केवल का नकद पुरस्कार   |
| 23. | सर्वोत्तम विशेष प्रभाव             | एन. मधुसूदनन<br>आलावंदान (तमिल )  | विशेष प्रभाव सृजक एन.<br>मधुसूदनन, 21-बी, पदमावती नगर<br>मेन रोड, पदमावती नगर,<br>वीरुगमबक्कम, चेन्नई 600 092<br>☎ 377 5087/7144557<br>09841058129 को रजत<br>कमल और रुपये 10,000/-<br>केवल का नकद पुरस्कार         |
| 24. | सर्वोत्तम नृत्य संयोजन             | राजू खान<br>लगान (हिन्दी )        | नृत्य संयोजक राजू खान, ए/303,<br>वीनस, साई बाबा गैलेक्सी,<br>ओशीवरा बस डिपो के सामने,<br>लिक रोड, गोरेगांव (प०) ,<br>मुंबई 400 104 ☎<br>8712763/9821049613 को<br>रजत कमल और रुपये 10,000/-<br>केवल का नकद पुरस्कार |

## 25. संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र

|    |                           |              |   |
|----|---------------------------|--------------|---|
| 1. | सर्वोत्तम बंगाली कथाचित्र | हेमन्तर पाकी | <p>निर्माता एन. एफ. डी. सी. लि०, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरु सेन्टर, डा. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई 400 018 को रजत कमल और रुपये 20,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> <p>निर्देशक उर्मि चक्रवर्ती, सदरन अपार्टमेंट्स, 86-बी, मनोहर पुकार रोड, कोलकाता 700 029 ☎ 4664952 को रजत कमल और रुपये 20,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p>  |
| 2. | सर्वोत्तम हिन्दी कथाचित्र | दिल चाहता है | <p>निर्माता रितेश सिद्धानी, 701, ऑरचिड प्राइड, एस. वी. रोड कार्नर एवं कान्हेन्ट एवेन्यू, सांताक्रूज (प०) मुंबई - 54 ☎ 26041011/26007273 फैक्स 6050500 को रजत कमल और रुपये 20,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> <p>निर्देशक फरहान अख्तर, द्वारा रितेश सिद्धानी, 701, ऑरचिड प्राइड, एस. वी. रोड कार्नर एवं कान्हेन्ट एवेन्यू, सांताक्रूज (प०) मुंबई - 54 ☎ 26041011/26007273 फैक्स 6050500 को रजत कमल और रुपये 20,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> |
| 3. | सर्वोत्तम कन्नड कथाचित्र  | अतिथि        | <p>निर्माता मैसर्स मित्रचित्रा, न. 835, पहला क्रॉस, बी एस के तीसरी स्टेज, सातवां ब्लॉक, दूसरी मंजिल, बंगलोर 560 085 ☎ 080 6724538 को रजत कमल और रुपये 20,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p>   |



|    |                           |               |  |
|----|---------------------------|---------------|--|
|    |                           |               | निर्देशक पी. शेषाद्री, मैसर्स मित्रचित्रा, न. 835, पहला क्रॉस, बी एस के तीसरी स्टेज, सातवां ब्लॉक, दूसरी मंजिल, बंगलोर 560 085 ☎ 080 6724538/9845075715 को रजत कमल और रुपये 20,000/- केवल का नकद पुरस्कार  |
| 4. | सर्वोत्तम मलयालम कथाचित्र | डैनी          | निर्माता टी.वी. चन्द्रन, एच 9, संगत, अलाकृति अपार्टमेंट्स, दूसरा मेन रोड, एम जी आर नगर, वेलाचेरी, चेन्नई 600 042 ☎ 2441961को रजत कमल और रुपये 20,000/- केवल का नकद पुरस्कार<br><br>निर्माता टी.वी. चन्द्रन, एच 9, संगत, अलाकृति अपार्टमेंट्स, दूसरा मेन रोड, एम जी आर नगर, वेलाचेरी, चेन्नई 600 042 ☎ 2441961को रजत कमल और रुपये 20,000/- केवल का नकद पुरस्कार                       |
| 5. | सर्वोत्तम उडिया फिल्म     | मगुनी रा सगदा | निर्माता एन. एफ. डी. सी. लि0, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेन्टर, डा. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई 400 018 को रजत कमल और रुपये 20,000/- केवल का नकद पुरस्कार<br><br>निर्देशक प्रफुल्ल मोहन्ती, डी-211, म. न. 108, मुनीरका गांव, लक्ष्मण सिंह कॉम्प्लेक्स 1, कम्युनिटी सेन्टर के सामने, नई दिल्ली 110067 ☎ 6170210 फैक्स 6196565 को रजत कमल और रुपये 20,000/- केवल का नकद पुरस्कार |

|    |                           |              |   |
|----|---------------------------|--------------|---|
| 6. | सर्वोत्तम तमिल फिल्म      | उरुकु नूरुपर | <p>निर्माता एल. सुरेश, आनंदा पिक्चर्स सर्किट, चौथी मंजिल, रहेजा कॉम्प्लेक्स, 834 माउंट रोड, चेन्नई 600 002 को रजत कमल और रुपये 20,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> <p>निर्देशक बी. लेनिन बुद्धा पिक्चर्स, न. 3, कृष्णा टेरेस, 162 अवाई, संमुगा साई, गोपालापुरम, चेन्नई - 86 ☎ 9841038682 को रजत कमल और रुपये 20,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p>  |
| 7. | सर्वोत्तम तेलुगु कथाचित्र | शो           | <p>निर्माता जी. मंजुला, 47 सी (नया न. 30), तीसरा ब्लॉक, हाउस ए, गांधी मंदारम रोड, कोटुरापुरम, चेन्नई- 600 085 ☎ 044 4470607 फैक्स 8154623 को रजत कमल और रुपये 20,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> <p>निर्देशक नीलाकंठा रेड्डी, 6-3-596/23 डी, वैक्टरमन कॉलोनी, हैदराबाद - 4 ☎ 040 3324704 को रजत कमल और रुपये 20,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> |

26. संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक भाषा से अलग भाषा में सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र

|    |                             |                  |  |
|----|-----------------------------|------------------|--|
| 1. | सर्वोत्तम अंग्रेजी कथाचित्र | मित्र माई फ्रेंड | <p>निर्माता सुरेश मेनन, टेलीफोटो एन्टरटेनमेंट्स लि., न. 14, विजयाराघव रोड, टी. नगर, चेन्नई 600 018 ☎ 8151724/8151726 को रजत कमल और रुपये 20,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> |
|----|-----------------------------|------------------|--|

|    |              |                                  |  |
|----|--------------|----------------------------------|--|
|    |              |                                  | निर्देशक रेवती (आशा मेनन )<br>टेलीफोटो एन्टरटेनमेंट्स लि., न.<br>14, विजयाराघव रोड, टी. नगर,<br>चेन्नई 600 018 ☎<br>8151724/8151726 को रजत<br>कमल और रुपये 20,000/- केवल<br>का नकद पुरस्कार  |
| 2. | विशेष उल्लेख | पनोई जोंगकी<br>(मीरी या मिसिंग ) | एम. जी. दिलीप डोले, आर. बी.<br>आई. क्वाटर कॉम्प्लेक्स, एफ-42,<br>हातीगढ चारली, जू नरेंगी रोड, डा.<br>गीता नगर, गुवाहटी - 24 ☎<br>9864092981 और<br><br>नारायण सील, द्वारा ककाती होली,<br>पब सरनिया, राजगढ बाई लेन -<br>4, चांदमरी, गुवाहटी - 3. ☎<br>528779 (नि.) को विशेष<br>उल्लेख प्रमाणपत्र |

## III गैर कथाचित्र वर्ग

|    |   |                                  |  |
|----|---|----------------------------------|--|
| 1. | सर्वोत्तम गैर कथाचित्र                      | सोनल (हिन्दी एवं<br>अंग्रेजी )   | निर्माता फिल्म प्रभाग, 24 जी.<br>देशमुख मार्ग, मुंबई - 400 016<br>को स्वर्ण कमल और रुपये<br>20,000/- केवल का नकद<br>पुरस्कार<br><br>निर्देशक प्रकाश झा, 512 आदर्श<br>नगर, ओसीवाडा जोगेश्वरी (प.)<br>मुंबई - 400 102 ☎ 6392354<br>(का.) /6325456 (नि.) फ़ैक्स<br>6368427 को स्वर्ण कमल और<br>रुपये 20,000/- केवल का नकद<br>पुरस्कार |
| 2. | निर्देशक की सर्वोत्तम<br>प्रथम गैर कथाचित्र | डायरी ऑफ ए हाउस<br>वाइफ (मलयालम) | निर्माता आशा जोसफ, नंदानम,<br>कोडुंगानूर, डा. वट्टीयूर कावु,<br>त्रिवेंद्रम, केरल 695013, ☎<br>0471 364897 को रजत कमल<br>और रुपये 5,000/- केवल का<br>नकद पुरस्कार<br><br>एवं   |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   |  | <p>निर्माता विनोद सुकुमारन, नंदानम, कोडुंगानूर, डा. वट्टीयूर कावु, त्रिवेंद्रम, केरल 695013, 0471 364897 को रजत कमल और रुपये 5,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> <p>निर्देशक विनोद सुकुमारन, नंदानम, कोडुंगानूर, डा. वट्टीयूर कावु, त्रिवेंद्रम, केरल 695013, 0471 364897 को रजत कमल और रुपये 5,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p>                   |
| 3. | सर्वोत्तम मानव शास्त्रीय/मानव जातीय फिल्म | दी मोनपास ऑफ अरुणाचल प्रदेश (अंग्रेजी) | <p>निर्माता फिल्म प्रभाग, 24 जी. देशमुख मार्ग, मुंबई - 400 016 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> <p>निर्देशक अरिबम शाम शर्मा, थांगमीबंद, लरंगपुरल, लिकाई सनाफडेंक लिराक, इम्फाल 795004 0385 413310 फैक्स 240037 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p>   |
| 4. | सर्वोत्तम जीवनी फिल्म                     | तीजनबाई (हिन्दी)                       | <p>निर्माता कुलदीप सिन्हा, फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, मुंबई - 400 026 3808805 (का.) /3640196 (नि.) फैक्स 3808805 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> <p>निर्देशक बी. पैकिरसामी, फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, मुंबई - 400 026 3808805 (का.) /3610692 (नि.) फैक्स 3808805 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> |

|    |  |                                       |   |
|----|--|---------------------------------------|---|
| 5. | पर्यावरण/संरक्षण/परिरक्षण पर सर्वोत्तम फिल्म | होली गंगा (हिन्दी)                    | <p>निर्माता वाई. एन. इंजीनियर, फिल्म प्रभाग, 24 पेड्डार रोड, मुंबई - 400 026 टेलीफैक्स 3868492 (का.) /4948832 (नि.) को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> <p>निर्देशक विपलव राय भाटिया, 106/107 न्यू जुहू रोज अपार्टमेंट्स, जुहू चर्च बस स्टाप के पास, कैलाश अपार्टमेंट के पीछे, जुहू मुंबई - 400 049, 6242283/9820121014 टेलीफैक्स 3868492</p>               |
| 6. | सर्वोत्तम प्रोत्साहित फिल्म                  | एन. एम. न. 458 (इन सर्च ऑफ मुगासिल्क) | <p>निर्माता वाई. एन. इंजीनियर, फिल्म प्रभाग, 24 पेड्डार रोड, मुंबई - 400 026 टेलीफैक्स 3868492 (का.) /4948832 (नि.) को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> <p>निर्देशक के.जी. दास, मंजुलिका कॉ-ऑपरेटिव हाउसिंग, फ्लैट न. सी-3/1, ई के टी पी, कोलकाता - 700 107 4438095 (का.) 4737955 (नि.) फैक्स 4737963 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> |
| 7. | सामाजिक मुद्दों पर सर्वोत्तम फिल्म           | ए न्यू पैराडिगम (अंग्रेजी)            | <p>निर्माता अरुणा राजे पाटिल, 1, शील गैरी, 25, अब्दुल गफ्फार खान रोड, वर्ली, मुंबई 400 018 4926896 नि./4973507फैक्स/982004656 2/6499451/6041168 (का.) को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p>   |

|    |  |                             |   |
|----|--|-----------------------------|---|
|    |  |                             | <p>निर्देशक अरुणा राजे पाटिल, 1, शील मैरी, 25, अब्दुल गफ्फार खान रोड, वर्ली, मुंबई 400 018 4926896 नि./4973507फैक्स/982004656 2/6499451/6041168 (का.) को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p>   |
| 8. | शिक्षा/प्रेरणा/अनुदेश पर सर्वोत्तम फिल्म | कनावु मलाईलेक्कू (मलयालम)   | <p>निर्माता टॉमी मैथ्यू, एलीमेंट्स मीडिया इनीसिएटिव, 4/1418-बी, कस्टम्स रोड, कोझीकोड, केरल 673 032 0495 765783 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> <p>निर्देशक एम. जी. ससी, गोकुलम, डा. अरंगोट्टुकारा, जिला त्रिसूर, केरल 680 593, 0488 477469/478005 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> |
| 9. | अनुसंधान पर सर्वोत्तम फिल्म              | कालाहांडी (उडिया/अंग्रेजी ) | <p>निर्माता सौदामिनी मिश्रा, सुभद्रा प्रोडक्संस, बीजू पटनायक चाक, तुलसीपुर, कटक 753 008 उडीसा 0671 300339/300382 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> <p>निर्देशक गौतम घोष, ब्लॉक 5, फ्लैट 50, 28/1ए, गरियाहाट रोड, कोलकाता 700 079 440 5630 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p>           |

|     |                                 |                            |  |
|-----|---------------------------------|----------------------------|--|
| 10. | सर्वोत्तम कार्टून फिल्म         | दी पिक कैमल<br>(हिन्दी)    | <p>निर्माता भारतीय बाल चित्र समिति (सी एफ एस आई), फिल्म प्रभाग परिसर, 24 डा. जी. देशमुख मार्ग, मुंबई 400 026 ☎ 38028270/3876136 फैक्स 3805610 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> <p>निर्देशक पौशाली मांगुली, 11/2 शिव शक्ति कॉ-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वसीहटपाडा-1, गाँव कुरर, संतोषी माता मन्दिर के पास, मलाड (पू0), मुंबई 400 097, ☎ 8422832 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> <p>एनीमेटर पौशाली मांगुली, 11/2 शिव शक्ति कॉ-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वसीहटपाडा-1, गाँव कुरर, संतोषी माता मन्दिर के पास, मलाड (पू0), मुंबई 400 097, ☎ 8422832 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> |
| 11. | निर्णायक मंडल का विशेष पुरस्कार | भीमसेन ओरकेस्ट्रा (हिन्दी) | <p>निर्देशक भीमसेन, घरीदा 32 वां रोड, टी.पी.एस. III, बांद्रा (प0), मुंबई 400 050 ☎ 6421860/6429548 फैक्स 6459669 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p>   |
| 12. | सर्वोत्तम लघु कल्पित फिल्म      | चैत्र (मराठी)              | <p>निर्माता निदेशक, भारतीय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, लॉ कालेज रोड, पुणे 411 004, ☎ 020 5431817/5433016/5430017 फैक्स 5430416 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p>   |

|     |                                  |  |   |
|-----|----------------------------------|--|---|
|     |                                  |  | निर्देशक क्रांति कनाडे, फ्लैट न.103, प्रथम तल, त्रिदल बिल्डिंग, डी एस के रानवारा सोसाइटी, बावदान, पुणे 411 021, टैलीफैक्स 020 2953143/2953150 मोबाइल 9822045942 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार   |
| 13. | परिवार कल्याण पर सर्वोत्तम फिल्म | सायान्तना तिते पाडाउकल (मलयालम)                  | निर्माता रतीश रमैया, रमैया क्रिएसंस, पदमा विलास, टी. सी. 16/1460, जगती, जे. पी. न. 38, थाईकॉड, डा. त्रिवेंद्रम 695 014 केरल, 336138/338203/485071 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार<br><br>निर्देशक सतीश वेंगनूर, न्यू हाउस, पम्प हाउस के पास, थलियाल, कामाना जंक्सन, त्रिवेंद्रम 695 014 केरल, 0471 468838, 9847408199 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार |
| 14. | सर्वोत्तम निर्देशन               | बुद्धदेव दास गुप्त जोरासंको ठाकुरबारी (अंग्रेजी) | निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्त, 32/1 एफ, गरियाहाट रोड (दक्षिण), फ्लैट 3ए, कोलकाता 700 031 4735545/49835874 को स्वर्ण कमल और रुपये 20,000/- केवल का नकद पुरस्कार  |
| 15. | सर्वोत्तम छायांकन                | निलोटपाल सरकार जोरासंको ठाकुरबारी (अंग्रेजी)     | कैमरामैन निलोटपाल सरकार, आशियाना अपार्टमेंट्स (फ्लैट 306), 78, राजेन्द्र एवेन्यू, उत्तरपारा, जिला हुगली - 712258 6644683/4451 फैक्स 6630063 को रजत कमल और रुपये 5,000/- केवल का नकद पुरस्कार  |



|     |                       |  |   |
|-----|-----------------------|--|---|
|     |                       | <p>सर्वोत्तम प्रयोगशाला</p> <p>इरोम मैकपाक<br/>मोनपास ऑफ<br/>अरुणाचल प्रदेश<br/>(अंग्रेजी)</p> <p>सर्वोत्तम प्रयोगशाला</p> | <p>फिल्म की प्रोसेसिंग करने वाली प्रयोगशाला, प्रसाद फिल्म प्रयोगशाला, चेन्नई को रजत कमल और रुपये 5,000/- केवल का नकद पुरस्कार एवं छायाकार इरोम मैकपाक, सागोलबंदसलम, लिकाई, इम्फाल, मणीपुर 795001 0385 229870 को रजत कमल और रुपये 5,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> <p>फिल्म की प्रोसेसिंग करने वाली प्रयोगशाला, प्रसाद कलिंगा फिल्म प्रयोगशाला लिमिटेड, घटकिया, नन्दनकोमन रोड, भुवनेश्वर 751 003 फ़ैक्स 470879 471016 को रजत कमल और रुपये 5,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p> |
| 16. | सर्वोत्तम ध्वनि आलेखन | <p>अनूप मुखोपाध्याय<br/>एनफ ऑफ साइलेंस<br/>(अंग्रेजी)</p>  | <p>अनूप मुखोपाध्याय, 50, देवीताला रोड (पू0), कर्मालगद, डॉ. इच्छापुर, नाबागंग, 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल पिन 743144, मोबाइल 9830170223/033 5617209 फ़ैक्स 357569 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p>  |
| 17. | सर्वोत्तम संपादन      | <p>अजीत कुमार बी.<br/>एथमन (सामान्य)</p>   | <p>फिल्म सम्पादक अजीत कुमार बी., सांतिभवन, माथिरापल्ली, कोटामंगलम, जिला एनाकुलम - 686691 केरल, 0485 822840/988950 88085 को रजत कमल और रुपये 10,000/- केवल का नकद पुरस्कार</p>   |

|     |                           |   |  |
|-----|---------------------------|---|--|
| 18. | सर्वोत्तम संगीत निर्देशन. | भास्कर चन्दावरकर<br>चैत्रा (मराठी )   | संगीत निर्देशक भास्कर<br>चन्दावरकर, श्री भास्कर<br>चन्दावरकर, शैलेश सोसाइटी,<br>गणेश नगर, पुणे 411 052 ☎<br>020 5441647 फैक्स<br>4018876/4018875 को रजत<br>कमल और रुपये 10,000/- केवल<br>का नकद पुरस्कार   |
| 19. | विशेष उल्लेख              | ए.बी. त्रिपाठी<br>कालाहांडी (उडिया-<br>अंग्रेजी )<br><br>सोनाली कुलकर्णी<br>चैत्रा (मराठी ) | ए.बी. त्रिपाठी, आई.पी.एस.<br>(सेवानिवृत्त) पूर्व पुलिस<br>महानिदेशक, उडीसा, 98 ए, सूर्या<br>नगर, भुवनेश्वर 751 003 उडीसा<br>☎ 0674 413185/403483 को<br>लिखित कथन के लिए प्रमाण पत्र<br><br>सोनाली कुलकर्णी, द्वारा भारतीय<br>चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, लॉ<br>कालेज रोड, पुणे 411 004 ☎<br>5431817 फैक्स 020 543 0416<br>को अभिनय के लिए प्रमाणपत्र |

## IV

## सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन

|    |                         |                                    |   |
|----|-------------------------|------------------------------------|---|
| 1. | सर्वोत्तम सिनेमा पुस्तक | असमिया चलचित्र<br>छ-पोहर (असमिया ) | लेखक अपूर्ब शर्मा, जे. बी. रोड,<br>अमोलपट्टी, नागाँव 782 001,<br>असम, ☎ 03672<br>33974/31680/20667 को स्वर्ण<br>कमल और रुपये 7,500/- केवल<br>का नकद पुरस्कार<br><br>प्रकाशक ज्ञान पुजारी, गाँव<br>कामडेवाल, डा. कालाबारी<br>784178, सोनितपुर, असम, ☎<br>03715 48168 को स्वर्ण कमल<br>और रुपये 7,500/- केवल का<br>नकद पुरस्कार |
|----|-------------------------|------------------------------------|---|

|    |                         |                         |  |
|----|-------------------------|-------------------------|--|
|    |                         | मौलिक चित्रगीत (मराठी)  | लेखक गंगाधर महांबारे, शिवरंजनी, 12 कलानिकेतन, पुणे सतारा रास्ता, पुणे 411043 ☎ 020 4379143 को स्वर्ण कमल और रुपये 7,500/- केवल का नकद पुरस्कार<br><br>प्रकाशक राजीव डी. बर्वे, प्रबन्ध निदेशक, दिलीप राज प्रकाशन प्रा0 लि0, 251 सी, शनिवार पेंठ, पुणे 411 030 ☎ 020 5465106 नि./ 9822082642/4483995/ 4495314/4471723 (का.) को स्वर्ण कमल और रुपये 7,500/- केवल का नकद पुरस्कार |
| 2. | सर्वोत्तम फिल्म समीक्षक | विनोद अनुपम             | फिल्म समीक्षक विनोद अनुपम, सदर बाजार डाकखाने के पास, जमाल पुर 811 214, जिला मुंगेर, बिहार ☎ 06344-42015 फैक्स 42926 मोबाइल 9835225488 को स्वर्ण कमल और रुपये 15,000/- केवल का नकद पुरस्कार   |
| 3. | विशेष उल्लेख            | डा0 सी. एस. वैकिटेश्वरन | फिल्म समीक्षक डा. सी. एस. वैकिटेश्वरन, 172, अमृता, सी एस एम नगर, इडापाझांजी, तिरुवनंतपुरम 695 010 ☎ 0471 317940 नि., 491490 (का.) को प्रमाणपत्र  |

अंजुली चिब दुग्गल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd January, 2003

**No. 303/48/2002-F(F).**—The Ministry of Information and Broadcasting, Government of India hereby notify that in accordance with the National Film Awards regulations and the regulations for National Film Award for the best writing on Cinema published vide the Ministry of Information and Broadcasting's public notice No. 303/64/2001-F(F) dated 4-6-2002 in Part I, Section 1 of the Gazette Notification of India, Extraordinary, the Central Government on the basis of recommendations made by the respective juries have decided to give awards to the following Films/Books/Persons :

| Sl. No.                           | Name of Award   | Award winning Film/ Persons or Book | Details of Award  |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| <b>I. Data Saheb Phalke Award</b> |   |                                     |   |
| 1.                                | Dada Saheb Phalke Award   | Yash Chopra                         | Swarna Kamal, a Shawl and A cash prize of Rs. 2,00,000 to Yash Chopra, M/s Yash Raj Films Private Limited, 17, Vikaspark, Jalpankhi Society, Juhu, Mumbai-400049. Tele: 02226178766/261787000, Fax: 26116714.   |
| <b>II. Feature Film</b>           |   |                                     |   |
| 1.                                | Best Feature Film   | Dweepa (Kannada)                    | Swarna Kamal and a cash prize of Rs. 50,000 to the Producer Soundarya, M/s Sathya Movie Makers, 505, 4th Cross, 3rd Block, II Stage, RMV Extn., Bangalore 560 094, Phone 3412999.<br><br>Swarna Kamal and a cash prize of Rs. 50,000/- to the Director Girish Kasaravalli 1015, 8th Cross, 16th Main, BTM Layout 1st Stage, Bangalore 560 029, Phone 6681015, Fax 080 6681014.  |
| 2.                                | Indira Gandhi Award for best First Film of a Director           | Tiladaanam (Telugu)                 | Swarna Kamal and a cash prize of Rs. 25,000/- to the Producer NFDC Ltd., No. 3, 4th Street, Nungumbakkan High Road, Cehnnai 600 034.<br><br>Swarna Kamal and a cash prize of Rs. 25,000/- to the Director K.N.T. Sastry, 202 Aashraya Apts., Sripuri Colony, Secunderabad 500 015. Tel 040 7742159.   |
| 3.                                | Award for best popular film providing wholesome entertainment   | Lagaan (Hindi)                      | Swarna Kamal and a cash prize of Rs. 40,000/- to the Producer Aamir Khan, Amir Khan Productions, Kubera Niwas, Bungalow No.2 Meera Baug Road, Santacruz (West), Mumbai 400 054, Phone 6605250/6605251, Fax 660 8201.<br><br>Swarna Kamal and a cash prize of Rs. 40,000/- to the Director Ashutosh Gowariker, 100/597 Gowariker Kum-Kum Villa, 16th Road Bandra (West), Mumbai-400 050, Phone 6004687/6004570, Fax 6608201. |
| 4.                                | Nargis Dutt Award for Best Feature Film on National Integration | Bub (Kashmiri)                      | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 30,000/- to the Producer NFDC Ltd., Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr. A.B. Road, Worli, Mumbai-400 018.<br><br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 30,000/- to the Director Jyoti Sarup, B-604, Abhishek Apts., Juhu Versova Link Road, Andheri (West), Mumbai-400 053. Phone 022 6373562, Telefax 6371023/9821226969.   |

| Sl. No. | Name of Award   | Award winning Film/ Person/Book                        | Details of Award   |
|---------|---|--|--|
| 5.      | Best film on other social issues such as prohibition, Women and Child Welfare, Antidowry, Drug Abuse, Welfare of the Handicapped etc. | Chandni Bar (Hindi)                                    | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 30,000/- to the Producer Lata Mohan Iyer, Shlok Films, A/9, Geesee Apartments, Vidyanagari Road, Kalina, Santa Cruz (East), Mumbai-400 698, Tel 61 15092/6902983 Fax 6902982 |
|         |   |  | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 30,000/- to the Director Madhur R. Bhandarkar, 634 Hari Bhavan, Khar Pali Road, Ground Floor, Mumbai-400 052 Phone 022 6484653/98203 58349.                                  |
| 6.      | Best Direction  | B. Lenin Ooruku Noorupar (Tamil)                       | Swarna Kamal and a cash prize of Rs. 50,000/- to the Director B. Lenin, 3, Murray's Gate Road, Alwarpet, Chennai-600 018.  |
| 7.      | Best Actor  | Murali Neythukaran (Malayalam)                         | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Actor Murali, "Karthika", Pandit Colony, Kowadiyar, Thiruvananthapuram-3, Kerala, Phone 0471 315984/ 311123 Fax 0471 311123                                  |
| 8.      | Best Actress  | Tabu Chandni Bar (Hindi)                               | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 5,000/- to the Actress Tabu, B-1, 301, Greenacres, Lokhandwala Complex, Andheri (W), Mumbai-400 053, Phone 6324702/ 9821335670 Fax 56904039/56904732                         |
|         |   | &  | &  |
|         |   | Shobana Mitr My Friend (English)                       | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 5,000/- to the actress Shobana, 77/5, Gulmohar Avenue, Velachery Road, Guindy, Chennai 32 Phone 2351348/2354036 Telefax 4990289  |
| 9.      | Best Supporting Actor   | Atul Kulkarni Chandni Bar (Hindi)                      | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the supporting actor Atul Kulkarni, 502, Nadan, Yahodham, Film City Road, Goregaon, (East), Mumbai-400 063. Phone 8427766/8402942/9820510884                     |
| 10.     | Best Supporting Actress   | Ananya Khare Chandi Bar (Hindi)                        | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the supporting Actress Ananya Khare, 402, A Wing, Padmavati Ngara Society, Film City Road, Goregaon (E), Mumbai 400 063. Phone 8421943/9820070823                |
| 11.     | Best Child Artist   | Baby P. Swetha Kutty (Tamil)                           | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Child Artist Baby P. Swetha, B-10, Vishnupriya Apartments, 16, Venkatesan Street, T. Nagar, Chennai 600 017, Phone 4346617/9841051181                        |
| 12.     | Best Playback Singer (Male)   | Udit Narayan Lagaan (Hindi) And Dil Chahta Hai (Hindi) | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the male Playback Singer Udit Narayan, 1101/A, 'Skypan' Oberoi Complex, New Link Road, Andheri (W), Mumbai-400 053. Tel 6364356/6325937 Fax 6347451              |
| 13.     | Best Playback Singer (Female)   | Sadana Sargam Udayageetha Vin "Azhahi"                 | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the female Playback Singer Sadana Sargam, C/o Smt. Udhaiye Geetha Cine Creations, 29/52, Velayudam Colony, 2nd Street, Saligramam, Chennai-93, Phone 3760290.    |

| Sl. No. | Name of Award         | Award winning Film/ Person/Book                   | Details of Award   |
|---------|-----------------------|---|--|
| 14.     | Best Cinematography   | H. N. Ramachandrar<br>Halkere Dweepa<br>(Kannada) | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Cameraman H. M. Ramachandrar Halkere, 496, 6th Main Dollors Colony, R.M.V. 2nd Stage, Bangalore 560 094. Tel: 080 351416   |
|         |                       | Best Lab  | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Laboratory Processing the Film the Prasad Lab. Bangalore.  |
| 15.     | Best Screenplay       | Neelakanta Show (Telugu)                          | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the screenplay Writer Neelakanta, 6-3-596/23D, Venkataramana Colony, Hyderabad-4. Phone 040 3324704  |
| 16.     | Best Audiography      | H. Sridhar Lagaan (Hindi)                         | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 5,000/- to the Re-Recordist of the Final Mixed Track H. Sridhar, GF # 1, Akshaya Apartments, 34, Krishna Swamy Avenue, Mylapore, Chennai-600 004. Phone 9840091692                 |
|         |                       | And   | And  |
|         |                       | Nakul Kamte Lagaan (Hindi)                        | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 5,000/- to the Re-Recordist of the Final Mixed Track Nakul Kamte, 9, Palm Court, 152 M. Karve Road, Mumbai 400 020. Tel 2023504 Fax 3874510/9820068739                             |
| 17.     | Best Editing          | Bina Paul Mitr My Friend<br>(English)             | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Editor Bina Paul, 5 K. Saraswathi Nilayam, Jawahar Nagar, Trivandrum-41. Phone 0471 720760   |
| 18.     | Best Art Direction    | Nitin Chandrakant Desai<br>Lagaan (Hindi)         | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Art Director Nitin Chandrakant Desai, 201/202, Tulip Sainath Garden, Navghar Road, Mulund (E), Mumbai 400 081, Phone 5693796 Telefax 5688447                       |
| 19.     | Best Costume Designer | Bhanu Athaiya<br>Lagaan (Hindi)                   | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Costume Designer Bhanu Athaiya, 19, Ground Floor, Shankar Mahal, Sophia Collage lane, Opp. Breach Candy, Mumbai 400 026. Telefax 23633185                          |
| 20.     | Best Music Direction  | A.R. Rahman Lagaan (Hindi)                        | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Music Director A.R. Rahman, No. 5, Dr. Subbarayan Nagar, 4th Street, Kodambakam, Chennai 24 Telefax 4802626, Phone 4836072/4812556                                 |
| 21.     | Best Lyrics           | Javed Akhtar Lagaan (Hindi)                       | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Lyricist Javed Akhtar, 702, Sagar Samrat, Green Field, Juhu, Mumbai 400 049, Phone 6200066, Telefax 620 2602.  |
| 22.     | Special Jury Award    | Janaki Viswanathan Kutty<br>(Tamil)               | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 25,000/- to the Director Janaki Viswanathan, B1 Vasanth Apartments, 260, Lloyds Road, Chennai 600 086, Phone 8206516/ 8262441  |
| 23.     | Best Special Effects  | N. Madhusudhanan<br>Aalavandaan (Tamil)           | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the special effects creator N. Madhusudhanan, 21-B, Padmavathy Nagar Main Road, Padmavathy Nagar, Virugambakkam, Chennai-600 092, Tel : 377 5087/ 7144557@/09841058129 |

| Sl. No.   | Name of Award                  | Award winning Film/ Person/Book | Details of Award   |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 24.   | Best Choreography              | Raju Khan Lagaan (Hindi)        | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Choreographer Raju Khan, A/303, Venus, Sai Baba Galaxy, Opp. Oshiwara Bus Depot, Link Road, Goregaon (West), Mumbai 400 104, Phone 8712763/ 9821049613.  |
| <b>25. Best Feature Film in each of the Language Specified in the Schedule VIII of the Constitution</b> |                                |                                 |  |
| (A)   | Best Feature Film in Bengali   | Hemantar Pakki                  | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Producer NFDC Ltd., Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr. A.B. Road, Worli, Mumbai-400 018.<br><br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Director Urmi Chakraborty, Soutehr Apts., 86-B, Manohar Pukur Road, Kolkata 700 029, Phone 4664952.  |
| (B)   | Best Feature Film in Hindi     | Dil Chahta Hai                  | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Producer Ritesh Sidhwani, 701, Orchid Pride, CRNR of S. V. Road, and Convent Avenue, Santacruz (West), Mumbai-400054 Phone 6041011/6007273 Fax 6050500.<br><br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Director Farhan Akhtar, C/o Shri Ritesh Sidhwani, 701, Orchid Pride, CRNR of S. V. Road, and Convent Avenue, Santacruz (West), Mumbai-54. Phone 6041011/6007273 Fax, 6050500. |
| (C)   | Best Feature Film in Kannada   | Atithi                          | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Producer M/s Mitrachitra, # 835, 1 Cross, BSK III Stage, 7th Block, 2nd Floor, Bangalore 560 085. Tel 0806724538.<br><br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Director P. Sheshadri, M/s Mitrachitra, # 835, 1 Cross, BSK III Stage, 7th Block, 2nd Floor, Bangalore-560 085. Tel 0806724538/9845075715.  |
| (D)   | Best Feature Film in Malayalam | Dany                            | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Producer T. V. Chandran, H. 9, Sangath, Alacrity Apartments, II Main Road, MGR Nagar, Velacherry, Chennai-600 042, Phone 2441961.<br><br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Director T. V. Chandran, H. 9, Sangath, Alacrity Apartments, II Main Road, MGR Nagar, Velacherry, Chennai-600 042. Phone 2441961.   |
| (E)   | Best Feature Film in Oriya     | Maguni Ra Shagada               | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Producer NFDC Ltd., Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr. A. B. Road, Worli, Mumbai-400018.<br><br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Director Prafulla Mohanty, D-211, House No. 108, Munirka Village, Laxman Singh Complex I, Opp. Community Centre, New Delhi-110 067, Phone 6170210, Fax 6196565.  |

| Sl. No.   | Name of Award                             | Award winning Film/ Person/Book  | Details of Award  |
|---|---|----------------------------------|---|
| (F)   | Best Feature Film in Tamil                | Ooruku Nooruper                  | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Producer L. Suresh, Ananda Pictures, Circuits, 4th floors, Raheja Complex, 834 Mount Road, Chennai-600 002.<br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Director B. Lenin, Buddha Pictures, No. 3, Krishna Terrace, 162 Avvai Shanmuga Saa, Gopalapuram, Chennai-86, Phone 98410 38682.  |
| (G)   | Best Feature Film in Telugu Show          |                                  | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Producer G. Manjula, 47 C (New No. 30) Block III House A, Gandhi Mandapam Road, Koturapuram, Chennai-600 085, Phone 044 4470607 Fax 8154623.<br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Director Neela Kanta Reddy, 6-3-596/23 D. Venkataramana Colony, Hyderabad-500 004. Phone 040 3324704.   |
| <b>26. Best Feature Film in each of the Languages other than those Specified in Schedule VIII of the Constitution</b> |   |                                  |   |
| (A)   | Best Feature Film in English              | Mitr My Friend                   | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Producer Suresh Menon, Telephoto Entertainments Ltd., No. 14, Vijayaraghava Road, T. Nagar, Chennai 600 018. Phone 8151724/8151726.<br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Director Revathy (Asha Menon), Telephoto Entertainments Ltd., No. 14, Vijayaraghava Road, T. Nagar, Chennai 600 018. Phone 8151724/8151726.  |
| (B)   | Special Mention                           | (Panoi-Jongki Miri or Mishing)   | Special mention Certificates to MG. Dilip Doley, R.B.I. Qtr. Complex, F-42, Hatigarh Chariali, Zoo Narengi Road, P. O. Gita Nagar, Guwahati-24, Phone 9864092981<br>And<br>Narayan Seal, C/o Kakati Howli, Pub Sarania, Rajgarh bye lane-4, Chandmari, Guwahati-3. Phone 528779@  |
| <b>III. Non-feature Section</b>   |   |                                  |   |
| 1.  | Best Non-feature Film                     | Sonal (Hindi & English)          | Swarna Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Producer Films Division, 24 G. Desh Mukh Marg, Mumbai-400 016.<br>Swarna Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Director Prakash Jha, 512 Adarsh Nagar, Oshiwara Jogeshwari (W), Mumbai-400 102. Phone 6392354 (O)/6325456 @ Fax 6368427.   |
| 2.  | Best First Non-feature Film of a Director | Diary of a Housewife (Malayalam) | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 5,000/- to the Producer Asha Joseph, Nandanam, Kodunganoor PO, Vittiyoar Kavu, Trivandrum, Kerala 695013. Phone 0471 364897.<br>And<br>Cash prize of Rs. 5,000/- to the Producer Vinod Sukumaran, Nandanam, Kodunganoor PO, Vattiyoar, Kavu, Trivandrum, Kerala 695013. Phone 0471 364897<br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Director Vinod Sukumaran Nandanam, Kodunganoor P.O. Vattiyoar Kavu, Trivandrum, Kerala-695013 Phone 0471 364897. |



| Sl. No. | Name of Award                                      | Award winning Film/ Person/Book           | Details of Award  |
|---------|--|---|---|
| 3.      | Best Anthropological/ Ethnographic Film            | The Monpas of Arunachal Pradesh (English) | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Producer Films Division, 24, Dr. G. Deshmukh Marg, Mumbai-400 016<br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Director, Aribam Syam Sharma, Thangmeiband Lourngpurel, Leikai, Sana Phandeng Leirak, Imphal 795004. Phone 0385 413310 Fax 240037  |
| 4.      | Best Biographical Film                             | Tejan Bai (Hindi)                         | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Producer Kuldeep Sinha, Films Division, 24 Peddar Road, Mumbai-400 026. Phone 3808805(O)/3640196 @ Fax 3808805<br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Director V. Packirisamy, Films Division, 24 Peddar Road, Mumbai-400 026, Phone 3808805(O)/3610692 @ Fax 3808805   |
| 5.      | Best Environment/ Conservation/ Preservation Film  | The Holy Ganga (Hindi)                    | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Producer Y.N. Engineer, Films Division, 24 Peddar Road, Mumbai-400 026, Telefax 3868492(O)/ 4948832@<br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Director Viplove Rai Bhatia, 106/107 New Juhu Rose Apartments, near Juhu Church Bus Stop, Behind Kailash Apartments, Juhu, Mumbai - 400 049. Phone 6242283/9820121014 Telefax 3868492               |
| 6.      | Best Promotional Film                              | N.M. No. 458 (in search of Muga Silk)     | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Producer Y.N. Engineer, Films Division, 24 Peddar Road, Mumbai-400026, Telefax 3868492(O)/ 4948832@<br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Director K.G. Das, Manjulika Co-op. Housing, Flat No. C-3/1, Ektp, Kolkata-700 107 Tel.4438095(O) 4737955 Fax 4737963(R)   |
| 7.      | Best Film on Social Issues                         | A New Paradigm (English)                  | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Producer Arunaraje Patil, 1, Sheel Marie, 25, Abdul Gaffar Khan Road, Worli, Mumbai-400 018 Tel. 4926896/4973507 (Fax)/9820046562/6499451/6041168 (O)<br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Director Arunaraje Patil, 1, Sheel Marie, 25, Abdul Gaffar Khan Road, Worli, Mumbai-400 018. Tel. 4926896/4973507 (Fax)/9820046562/6499451/6041168 |
| 8.      | Best Educational/ Motivational/ Instructional Film | Kanavu Malayilekku (Malayalam)            | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Producer Tomy Mathew, Elements Media Initiative, 4/1418-B Customs Road, Kozhikode, Kerala 673 032, Phone 0495 765783<br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Director M.G. Sasi, Gokulam, Arangottukara P.O. Thrissur Disstt, Kerala 680 593., Phone 0488 477469/ 478005.  |

| Sl. No. | Name of Award               | Award winning Film/ Person/Book                   | Details of Award   |
|---------|-----------------------------|---|--|
| 9.      | Best Investigative Film     | Kalahandi (Oriya/English)                         | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Producer Soudamini Mishra, Subhadra Productions, Biju Parttnaik Chhak, Tulsipur, Cuttack 753 008, Orissa, Phone 0671 300339/300382.<br><br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Director Goutam Ghosh, Block 5, Flat 50, 28/1A, Gariahat Road, Kolkata 700 079, Phone 440 5630.   |
| 10.     | Best Animation Film         | The Pink Camel (Hindi)                            | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Producer Children's Film Society of India (CFSI), Films Division Complex, 24 Dr. G. Deshmukh Marg, Mumbai - 400 026, Phone 3802870/3876136 Fax 3805610<br><br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Director Paushali Ganguli, 11/2 Shiv Shakti Co-op. HSG Soc, Vasihetpada-1, Kurar Village, Near Santoshi Mata Mandir, Malad(E), Mumbai 400 097, Phone 8422832<br><br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Animator, Paushali Ganguli, 11/2 Shiv Shakti Co-op. HSG, Soc. Vasihetpada-1, Kurar Village, Near Santoshi Mata Mandir, Malad(E), Mumbai 400 097, Phone 8422832 |
| 11.     | Special Jury Award          | Bhimsain Orchestra (Hindi)                        | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Director Bhimsain Gharonda, 32nd Road, T.P.S. III, Bandra (W), Mumbai 400 050, Phone 6421860/6429548 Fax 6459669   |
| 12.     | Best Short Fiction Film     | Chitra (Marathi)                                  | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Producer Director, Film and Television Institute of India, Law College Road, Pune 411 004, Phone 020 5431817/5433016/5430017 Fax 5430416<br><br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Director Kranti Kanade, Flat No. 103, First Floor, Tridal Building, DSK Raanvara Society, Bavdhan, Pune 411021, Telefax 020 2953143/2953150 Mobile - 9822045942  |
| 13.     | Best Film on Family Welfare | Sayanthana Thinte Padavukal (Malayalam)           | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Producer Ratheesh Ramayya, Ramayya Creations, Padma Vilas, T.C. 16/1460, Jagathy, J.P. No. 38, Thycaud, P.O. Trivandrum 695 014, Kerala, Phone 336138/338203/485071<br><br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Director Satheesh Venganoor, New House, near Pump House, Thaliyal, Kaamana Jn. Thiruvananthapuram, Phone 0471 468838 (O) Mobile 9847408199.   |
| 14.     | Best Direction              | Buddhadeb Dasgupta Jorasanko Thakurbari (English) | Swarna Kamal and a cash prize of Rs. 20,000/- to the Director Buddhadeb Dasgupta, 32/1F, Gariahat Road (South), Flat 3 A, Kolkata 700 031, Fax 4735545.  |

| Sl. No.                           | Name of Award        | Award winning Film/Person/Book   | Details of Award   |
|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| 15.                               | Best Cinematography  | Nilotpal Sarkar<br>Jorasanko Thakurbari (English)<br>Best Lab<br>and<br>Irom Maikpak Monpas of Arunachal Pradesh (English)<br>Best Lab | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 5,000/- to the Cameraman Nilotpal Sarkar, Ashiana Apartments (Flat 306) 78, Rajendra Avenue, Uttarpara Distt. Hooghly-712258. Phone: 6644683/4451 Fax 6630063.<br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 5,000/- to Laboratory Processing the Film Prasad Film Laboratories, Chennai.<br>and<br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 5,000/- to the Cameraman Irom Maikpak, Sagolband Salam Leikai, Imphal, Manipur 795 001. Tel: 0385 229870.<br>Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 5,000/- to Laboratory Processing the Film Prasad Kalinga Film Laboratories Ltd., Ghatikia, Nandan Kanan Road, Bhubaneswar 751 003. Phone: 471016 Fax 470879. |
| 16.                               | Best Audiography     | Anup Mukhopadhyay<br>Enough of Silence (English)   | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the recordist of the final mixed track Anup Mukhopadhyay, 50, Debitala Road East, Kamalgarh, P.O. Ichhapur Nababganj, 24 Parganas (North), West Bengal. Pin-743 144, Mobile Phone: 9830170223/033 5617209 Fax 3575691.   |
| 17.                               | Best Editing         | Ajith Kumar B.<br>Athman (Universal)   | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Film Editor Ajith Kumar B., Santhi Bhavan, Mathirappally, Kothamangalam, Ernakulam Distt.-686691, Kerala, Phone: 0485 822840/98950 88085.  |
| 18.                               | Best Music Direction | Bhaskar Chandavarkar<br>Chaitra (Marathi)  | Rajat Kamal and a cash prize of Rs. 10,000/- to the Music Director Bhaskar Chandavarkar, Shailesh Society, Ganesh Nagar, Pune 411 052, Phone 020 5441647 Fax 4018876/4018875.  |
| 19.                               | Special Mention      | A. B. Tripathy<br>Kalahandi (Oriya-English)<br>Sonali Kulkarni<br>Chaitra (Marathi)  | Certificate for Written Narration to A. B. Tripathi, IPS (Rtd.), Former Director General of Police, Orissa, 98-A, Surya Nagar, Bhubaneswar 751 003, Orissa, Phone: 0674 413185/403483.<br>Certificate for Acting to Sonali Kulkarni, C/o Film and Television Institute of India, Law College Road, Pune 411 004, Phone 5431817 Fax 020 543 0416.   |
| <b>IV. Best Writing on Cinema</b> |                      |  |  |
| 1.                                | Best Book on Cinema  | Asomiya Chalachitrar Chha-Pohar (Assamese)<br>and  | Swarna Kamal and a cash prize of Rs. 7,500/- to the Author Apurba Sarma, J. B. Road, Amolpatty, Nagaon 782 001, Assam, Phone: 03672 33974/31680/20667.<br>Swarna Kamal and a cash prize of Rs. 7,500/- to the Publisher Jnan Pujari, Vill: Kamdewal, P. O. Kalabari 784178, Sonitpur, Assam, Phone 03715 48168.  |

| Sl. No. | Name of Award    | Award winning Film/Person/Book          | Details of Award  |
|---------|------------------|---|---|
|         |                  | Moulik Marathi<br>Chitrageete (Marathi) | Swarna Kamal and a cash prize of Rs. 7,500/- to the author Gangadhar Mahambare, Shivranjani, 12 Kala Niketan, Pune-Satara Rasta, Pune 411 043, Phone: 020-4379143.<br><br>Swarna Kamal and a cash prize of Rs. 7,500/- to the Publisher Rajeev D. Barve, Managing Director, Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd., 251 C, Shaniwar Peth, Pune-411 030, Phone: 0205465106, (R) 9822082642/4483995/4495 314/4471723 (O). |
| 2.      | Best Film Critic | Vinod Anupam                            | Swarna Kamal and a cash prize of Rs. 15,000/- to the Hindi Film Critic Vinod Anupam, Near Sadar Bazar Post Office, Jamalpur 811 214, Distt. Munger (Bihar), Phone: 06344-42015, Fax 42926, Mobile 9835225488.   |
| 3.      | Special Mention  | Dr. C.S. Venkiteswaran                  | Certificate to English Film Critic Dr. C. S. Venkiteswaran, 172, Amrita, CSM Nagar, Edapazhanji, Thiruvananthapuram 695 010. Phone 0471 317940 @ 491490 (O).  |

ANJULY CHIB DUGGAL, Jt. Secy.